

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रामीण नरेगा/एमआईएस इश्यु/01154

जयपुर, दिनांक :

8 MAY 2019

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
महात्मा गांधी नरेगा,  
जिला परिषद समरत राजस्थान।

**विषय :-** योजनान्तर्गत कार्यों को प्रगतिरत किये जाने के संबंध में  
दिशा-निर्देश।

**संदर्भ :-** विभागीय समसंबंधिक पत्र दिनांक 15.03.2018  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिलों द्वारा  
कार्यों पर मस्टररोल एवं सामग्री मद के बिल वाउचर्स की फीडिंग बकाया होने के  
बावजूद भी नरेगा सॉफ्ट पर कार्यों को पूर्ण दर्शा दिया जाता है। इन बकाया  
मस्टररोल एवं बिल वाउचर्स के भुगतान हेतु जिलों द्वारा राज्य स्तर पर कार्यों को  
पुनः प्रगतिरत किये जाने के संबंध में बार-बार अनुरोध किया जाता है।

अतः उपरोक्त के संबंध में कार्यों को प्रगतिरत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार  
कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

- 1 जिन कार्यों को प्रगतिरत करवाया जाना है, उन कार्यों की सूचना निम्न  
फोर्मेट में मय सक्षम स्तर से जारी की गई यूसी की प्रति सहित भिजवाई  
जावे :-


| क्रमांक | ग्राम पं. | कार्य कोड एवं वार्ष | तकनीकी स्तरीकृति |      | वित्तीय स्तरीकृति |      | यारतापिक व्यय राशि | एग.आई.एस. के अनुसार व्यय राशि | बिल की राशि जिरावा भुगतान बकाया है। |      | गृह्यांकन |      | औतिक रूप से कार्य की दिवाति पूर्ण/अपूर्ण | विशेष विवरण |
|---------|-----------|---------------------|------------------|------|-------------------|------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------|------------------------------------------|-------------|
|         |           |                     | दिनांक           | राशि | दिनांक            | राशि |                    |                               | बिल न.                              | राशि | दिनांक    | राशि |                                          |             |
| 1       | 2         | 3                   | 4                | 5    | 6                 | 7    | 8                  | 9                             | 10                                  | 11   | 12        | 13   | 15                                       | 16          |

- 2 ऐसे कार्य जो चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण किये  
गये हैं उन कार्यों के कार्य कोड मय कार्य पूर्णता दिनांक नरेगा सॉफ्ट से  
प्रिन्ट लेकर संलग्न की जावे।
- 3 व्यक्तिगत लाभ के कार्य जो पूर्ण दर्शा दिये गये हैं उन कार्यों पर संबंधित  
पंचायत समिति के विकास अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी की जांच  
रिपोर्ट के उपरान्त की गई अनुशंषा के आधार पर राज्य स्तर पर कार्य को  
प्रगतिरत किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

✓

- 4 वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले जो कार्य मय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (व्यवित्तगत लाभ के कार्यों के अतिरिक्त) पूर्ण दर्शाये गये हैं उन कार्यों पर अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा जांच की जाकर की गई अनुशंसा के आधार पर कार्य को प्रगतिरत किये जाने पर विचार किया जावेगा।
- 5 ऐसे कार्य जो नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शा दिये गये हैं, परन्तु डीपीआर अनफ्रीज होने के कारण जिओटैग नहीं किये गये हैं। ऐसे कार्यों की नरेगा साप्ट पर उपलब्ध लिस्ट संलग्न की जावे।
- 6 ऐसे कार्य जो नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शा दिये हैं एवं उन कार्यों पर मरटरोल तथा बिल वात्चर की फीडिंग की हुई है परन्तु वास्तव में भुगतान नहीं हुआ है अर्थात् वेज लिस्ट/मैटेरियल लिस्ट जनरेट किया जाना शेष है। इस स्थिति में नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित बकाया मरटरोल एवं बिल वात्चर्स की लिस्ट संलग्न किया जावे।
- 7 भुगतान बकाया होने के बावजूद किस अधिकारी/कार्मिक के निर्देशानुसार कार्य को नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शाया गया, के विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।


उपरोक्तानुसार सूचना केवल अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा केवल स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा ही भिजवाये जाने के पश्चात् ही राज्य स्तर पर सक्षम स्तर से अनुमति के बाद कार्यों को प्रगतिरत किया जाना संभव हो सकेगा।



भवीतीय,  
 (पी.सी.किशन)  
 आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, समस्त राजस्थान।
- 2 रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस